



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052025-263330  
CG-DL-E-23052025-263330

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 2025/ ज्येष्ठ 2, 1947

No. 293]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 2025/JYAISTHA 2, 1947

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2025

सा.का.नि. 336 (अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का-निर्माण (अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.- अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में तीन सौ रुपये मूल्यवर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमाण और संरचना.- नियम 2 में उल्लिखित उपरोक्त मूल्यवर्ग का सिक्का, निम्नलिखित विमाणों और संरचना के अनुरूप होगा, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्यवर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदारों किनारे की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
तीन सौ रुपये	वृत्ताकार	200	चतुर्थक मिश्र धातु

	44 मिलीमीटर		चांदी- 50 प्रतिशत तांबा- 40 प्रतिशत निकिल- 05 प्रतिशत जस्ता- 05 प्रतिशत
--	-------------	--	--

4. डिज़ाइन.- सिक्के का डिज़ाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार – अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्यवर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

### प्रथम अनुसूची

(नियम 4 देखें)

#### तीन सौ रुपये

##### अग्र भाग:

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “300” भी होगा।

##### पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में अहिल्याबाई होलकर का चित्र होगा। चित्र के बायीं ओर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में '1725' उत्कीर्णित होगा और दाहिनी ओर '2025' उत्कीर्णित होगा। सिक्के की उपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती” लिखा होगा। सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में “300<sup>TH</sup> BIRTH ANNIVERSARY OF AHILYABAI HOLKAR” वर्णित होगा।

### दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		धातु संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
तीन सौ रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।

[फा.सं. 02/24 /2024 -सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**New Delhi, the 22<sup>nd</sup> May, 2025

**G.S.R. 336(E).**— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section(2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

- 1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin to commemorate on the occasion of 300<sup>th</sup> Birth Anniversary of Ahilyabai Holkar) Rules, 2025.  
  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Denomination of coin.-** The coin of Three Hundred Rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of 300<sup>th</sup> Birth Anniversary of Ahilyabai Holkar.
- 3. Dimension and composition of coin.-** The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Three Hundred Rupees	Circular 44 millimeter	200	<b>Quaternary Alloy</b> Silver - 50 %. Copper – 40% Nickel - 05 % Zinc - 05 %

- 4. Design.-** The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

- 5. Standard weight and remedy allowed.-** The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 shall be coined to commemorate on the occasion of 300<sup>th</sup> Birth Anniversary of Ahilyabai Holkar and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

**THE FIRST SCHEDULE**

[ See rule 4]

**THREE HUNDRED RUPEES****OBVERSE:**

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “300” in the international numerals below the Lion Capitol.

**REVERSE:**

This face of coin shall bear the image of Ahilyabai Holkar in the centre of the coin. The year ‘1725’ in international numerals shall be inscribed on the left side of the image, and the year ‘2025’ shall be inscribed on the right side. The inscription “अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती” shall be written in Devnagari script on the upper periphery and the inscription “300<sup>TH</sup> BIRTH ANNIVERSARY OF AHILYABAI HOLKAR” shall be inscribed in English on the lower periphery of the coin.

**THE SECOND SCHEDULE**

[See rule 5]

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Three Hundred Rupees	35 Grams	1/500 <sup>th</sup> plus or minus for Silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 <sup>th</sup> plus or minus, that is to say weight could be 34.65 grams to 35.35 grams.

[ F.No. 02/24/2024 – Coin]  
APARNA BHATIA, Advisor